



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, सितम्बर 6—सितम्बर 12, 2009, शनिवार/भाद्र 15—भाद्र 21, 1931  
No. 15] NEW DELHI, SEPTEMBER 6—SEPTEMBER 12, 2009, SATURDAY/BHADRA 15—BHADRA 21, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग  
आदेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2009

आ.अ. 33.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनियम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	154-डुमरियागंज	हरीश चन्द्र, ग्राम व पोस्ट माली मैनहा, जनपद-सिद्धार्थनगर ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	202-मुबारकपुर	रणधीर, ग्राम-गजहड़ा, पो-लोहरा, जिला-आजमगढ़।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3	-वही-	-वही-	संतोष, ग्राम-समसुद्दीन, पो.-डीहा, जिला-आजमगढ़।	-वही-
4	-वही-	236-केराकत (अ.जा.)	मुन्नीलाल, ग्राम-जमुआ, पो. रतनपुर, जौनपुर।	-वही-
5	-वही-	-वही- (अ.जा.)	विद्या सागर, ग्राम-बांसवारी, पो.-उदयचन्दपुर, जिला-जौनपुर।	-वही-
6	-वही-	259-इलाहाबाद उत्तर	राकेश, 176ए कृष्ण नगर कीटगंज, इलाहाबाद।	-वही-
7	-वही-	-वही-	सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, 7/1 गोविन्दपुर, इलाहाबाद।	-वही-
8	-वही-	-वही-	मो. हुसैन, एम.सी. III/447 मेडिकल कालेज कैम्पस, इलाहाबाद।	-वही-
9	-वही-	-वही-	अशोक कुमार, 1091/745 रामबाग, इलाहाबाद।	-वही-
10	-वही-	-वही-	गौतम, 138 नया पूरा स्टैनली रोड, इलाहाबाद।	-वही-
11	-वही-	-वही-	लल्लू राम, 3 रामबाग, इलाहाबाद।	-वही-
12	-वही-	-वही-	सविता, 22/47/133 अल्लापुर, शिव नगर, इलाहाबाद।	-वही-
13	-वही-	267-हसवा	लखन लाल, भिखारीपुर (ईसाई का पुरवा), फतेहपुर।	-वही-
14	-वही-	-वही-	गंगा सागर, ग्राम व पोस्ट-शाखा, फतेहपुर।	-वही-
15	-वही-	-वही-	रमेश, ग्राम व पोस्ट-शाह, जिला-फतेहपुर।	-वही-
16	-वही-	-वही-	सूरज बली, ग्राम व पोस्ट-चुरियानी, फतेहपुर।	-वही-
17	-वही-	268-फतेहपुर	जुल्फेकार आलम, ग्राम व पो.-बहरामपुर, जिला-फतेहपुर।	-वही-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	268-फतेहपुर	लक्ष्मण, ग्राम खरगपुर, पो. चितीसापुर, जिला-फतेहपुर।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
19.	-वही-	-वही-	लालसा देवी यादव, ग्राम नरायनपुर मजरे मथैयापुर, पो. जमरांवा, जिला-फतेहपुर।	-वही-
20.	-वही-	-वही-	नाथू, ग्राम मूसेपुर, पो.-फतेहपुर, जिला-फतेहपुर।	-वही-
21.	-वही-	-वही-	सखेन्द्र सिंह, ग्राम लकड़ी, पो.-जमरांवा, जिला-फतेहपुर।	-वही-
22.	-वही-	269-जहानाबाद	सुनील दत्त, ग्राम पोजेपुर, कस्बा कोडा, जिला-फतेहपुर।	-वही-
23.	-वही-	-वही-	अनिल कुमार, ए 655, आवास विकास हंसपुरम, कानपुर नगर।	-वही-
24.	-वही-	-वही-	मुनेश, ग्राम ककरैहा, पो.-देवमई, जिला-फतेहपुर।	-वही-
25.	-वही-	-वही-	राम प्रसाद, ग्राम मेढ़ापाटी, पो. बिरनई, जिला-फतेहपुर।	-वही-
26.	-वही-	-वही-	विसम्भर, ग्राम घेरा, पो.-बारा, जिला-फतेहपुर।	-वही-
27.	-वही-	270-बिन्दकी	जगपाल कुशवाहा, 35 ए तिरम्बी आवास विकास हंसपुरम नौबस्ता, कानपुर नगर।	-वही-
28.	-वही-	-वही-	जबर सिंह, ग्राम कंसाखेड़ा, पो.-खजुहा, तहसील बिन्दकी, जिला-फतेहपुर।	-वही-
29.	-वही-	280-राजपुर	अजेन्द्र कुमार, ग्र. व पो. रमऊ, कानपुर देहात।	-वही-
30.	-वही-	-वही-	सुधार कुमार, ग्राम गुलौली, पो. गिरसी, कानपुर देहात।	-वही-
31.	-वही-	-वही-	मनोज सिंह, हाजिरपुर, तहसील सिकन्दरा, कानपुर देहात।	-वही-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	280-राजपुर	श्याम बाबू शर्मा, इन्द्रा नगर, ए. ब्लॉक लखनऊ ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने असफल रहे ।
33.	-वही-	319-माधोगढ़	विनोद प्रताप सिंह, ग्राम-मिहोनी, पो. माधौगढ़, जिला-जालौन ।	-वही-
34.	-वही-	-वही-	वीरेन्द्र सिंह, ग्राम-अकबरपुरा माधौगढ़, जिला-जालौन ।	-वही-
35.	-वही-	350-गोकुल	यमुना चौधरी, निवासी 271 गोधूनीपुरम वृन्दावन, मथुरा ।	-वही-
36.	-वही-	-वही-	सुन्दर स्वरूप, निवासी सुखनगढ़, राया, मथुरा ।	-वही-
37.	-वही-	-वही-	गिराज सिंह, निवासी नगला खूवी, महावन, मथुरा ।	-वही-
38.	-वही-	-वही-	रणवीर सिंह, निवासी रायपुर मई (गोपालपुर) महावन, मथुरा ।	-वही-
39.	-वही-	-वही-	सोवरन सिंह, निवासी नगला ताज, पो. जुगसना, मथुरा ।	-वही-
40.	-वही-	-वही-	शवि राम उर्फ शिवराज सिंह, निवासी सराय सालवाहन, पो. मगना, मथुरा ।	-वही-

[सं 76/उ.प्र.-वि.स./2007]

आदेश से,

बर्नार्ड जॉन, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## ORDER

New Delhi, the 4th September, 2009

O.N. 33.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Elections to the Legislative Assembly in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table ;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either house of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—



TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl. No. & Name of Constituency	Name & Address of Contesting Candidates	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007	154-Domariaganj	Harish Chandoor, Vill. & P. O. Malimainaha, Distt. Siddharthnagar.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
2.	-do-	202-Mubarakpur	Randhir, Vill. Gajhara, P.O. Lohra, Distt. Azamgarh.	-do-
3.	-do-	-do-	Santosh, Vill. Samsuddinpur, P.O. Diha, Distt. Azamgarh.	-do-
4.	-do-	236-Kerakat (SC)	Munni Lal, Vill. Jamuwa, Post Ratanupur, Distt. Jaunpur.	-do-
5.	-do-	-do-	Vidya Sagar, Vill. Banswari, Post Udaichandpur, Distt. Jaunpur.	-do-
6.	-do-	259-Allahabad North	Rakesh, 176A Krishna Nagar, Kydganj, Allahabad.	-do-
7.	-do-	-do-	Santosh Kumar Srivastava, 7/1 Govindpur, Allahabad.	-do-
8.	-do-	-do-	Mohd. Hussain, MC-III/447 Medical College, Allahabad.	-do-
9.	-do-	-do-	Ashok Kumar, 1091/745 Ram Bagh, Allahabad.	-do-
10.	-do-	-do-	Gautam, 138 Nayapura Stanley Raod, Allahabad.	-do-
11.	-do-	-do-	Laloo Ram, 3 Ram Bagh, Allahabad.	-do-
12.	-do-	-do-	Savita, 22/47/133 Allapur Shiv Nagar, Allahabad.	-do-
13.	-do-	267-Haswa	Lakhan Lal, Vill. Bhikharipur (Isai Ka Purva), Distt. Fatehpur.	-do-
14.	-do-	-do-	Ganga Sagar, Vill. & P.O. Shakha, Distt. Fatehpur.	-do-
15.	-do-	-do-	Ramesh, Vill. & P.O. Shah, Distt. Fatehpur.	-do-
16.	-do-	-do-	Suraj Bali, Vill. & P.O. Churiyani, Distt. Fatehpur.	-do-

3176 GI/09-2



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	General Election of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007	268-Fatehpur	Julphekar Alam, Vill. & P. O. Bahrapur, Distt. Fatehpur.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
18.	-do-	-do-	Laxman, Vill. Kharagpur, Post Chittisapur, Distt. Fatehpur.	-do-
19.	-do-	-do-	Lalsa Devi Yadav, Vill. Narayanpur H/O Mathaiyapur, Post Jamrawan, Distt. Fatehpur.	-do-
20.	-do-	-do-	Nathu, Vill. Musepur, Post Fatehpur, Distt. Fatehpur.	-do-
21.	-do-	-do-	Sakhendra Singh, Vill. Lakdi, Post Jamrawan, Distt. Fatehpur.	-do-
22.	-do-	269-Jahanabad	Sunil Dutt, Vill. Pozepur, Post Kasba Koda, Distt. Fatehpur.	-do-
23.	-do-	-do-	Anil Kumar, A-655 Awas Vikas Hanspuram, Kanpur Nagar.	-do-
24.	-do-	-do-	Munesh, Vill. Kakraiha, Post Deomai, Distt. Fatehpur.	-do-
25.	-do-	-do-	Ram Prasad, Vill. Medhapaty, Post Birnai, Distt. Fatehpur.	-do-
26.	-do-	-do-	Vishambhar, Vill. Ghera, Post Bara, Distt. Fatehpur.	-do-
27.	-do-	270-Bindki	Jagpal Kushwaha, 35A, Tirambi Awas Vikas Hanshpuram Naubasta, Distt. Kanpur Nagar.	-do-
28.	-do-	-do-	Jabar Singh, Vill. Kansakheda, Post Khajuha, Tehsil Bindki, Distt. Fatehpur.	-do-
29.	-do-	280-Rajpur	Ajendra Kumar, Vill. & Post Ramau, Kanpur Dehat.	-do-
30.	-do-	-do-	Sudhir Kumar, Vill. Gulauli, Post Girsi, Bhognipur, Kanpur Dehat.	-do-
31.	-do-	-do-	Manoj Singh, Hazirpur, Tehsil Sikandra, Kanpur Dehat.	-do-
32.	-do-	-do-	Shyam Babu Sharma, Indra Nagar, A-Block, Lucknow.	-do-
33.	-do-	319-Madhogarh	Vinod Pratap Singh, Vill. Mihoni, Madhaugarh, Distt. Jalaun.	-do-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	General Election of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	319-Madhogarh	Virendra Singh, Akbarpura Madhaugarh, Distt. Jalaun.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
35.	-do-	350-Gokul	Yamuna Chaudhari, R-271 Godhuli Puram Vrindavan, Mathura.	-do-
36.	-do-	-do-	Sundar Swaroop, R-Sukhan Garh, Raya, Mathura	-do-
37.	-do-	-do-	Girraj Singh, R-Nagla Khubi, Mahavan, Mathura.	-do-
38.	-do-	-do-	Ranveer Singh, R-Raypur Mai, (Gopal Pur), Mathura.	-do-
39.	-do-	-do-	Sovaran Singh, R-Nagla Taj, P.O. Jugasana, Mathura.	-do-
40.	-do-	-do-	Shavi Ram alias Shiv Raj Singh, R-Saray Salwahan, P.O. Garhi Mangana, Mathura.	-do-

[No. 76/UP-LA/2007]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2009

आ.अ. 34.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट पंजाब विधान सभा, 2007 के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अतः निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

## सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पंजाब विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2007	28. आदमपुर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	श्री कुलविंदर सिंह गांव सतोवाली, तहसील व जिला जालन्धर, पंजाब	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	69, खराड विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	श्री अनिल कुमार 4153, सेक्टर 68, एस ए एस नगर, मोहाली, पंजाब	-वही-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	पंजाब विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2007	105. मुक्तसर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	श्री गुरविंदर सिंह, दशमेश नगर, गली नंबर 1, कोटकापुरा रोड, मुक्तसर, पंजाब	निर्वाचन व्ययों का लेखा कानूनी आवश्यकता के अनुसार दाखिल करने में असफल रहे।

[सं. 76/पंजाब-वि.स./2008(5)]

आदेश से,

शंगारा राम, प्रधान सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 7th September, 2009

**O.N. 34.**—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Elections to the Punjab Legislative Assembly, 2007 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge an the account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made thereunder; as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and the Election Commission is thus, satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order :—

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Constituency	Name & Address of contesting candidates	Reasons for disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Punjab Legislative Assembly, 2007	28-Adampur	Sh. Kulwinder Singh, Vill. Satowali, Tehsil & Distt. Jalandhar, Punjab.	Failure to lodge account of election expenses.
2.	-do-	69-Kharar	Shri Anil Kumar, 4153, Sector 68, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab.	-do-
3.	-do-	105-Muktsar	Sh. Gurvinder Singh, Dashmesh Nagar, Street No. 1, Kotkapura Road, Muktsar, Punjab.	Failure to lodge account of election expenses in the manner required by law.

[No. 76/PB-LA/2008(5)]

By Order,

SHANGARA RAM, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2009

**आ.अ. 35.**—यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट गोवा विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2007 में स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में दर्शाए गए अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;



और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बाद भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है अथवा उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई उचित कारण अथवा न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह घोषणा करता है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, राज्य की विधान परिषद् अथवा विधान सभा अथवा संसद के दोनों सदनों अथवा संघ राज्य क्षेत्र में सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित किए जाते हैं :-

#### सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम एवं पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गोवा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2007	20-पोण्डा	डायस सान्तन म. नं.-539/5 केरियम खांडेपार पोण्डा गोवा, खांडेपार 403401	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	36-सांगुएम	अल्फ्रेड फर्नांडिस म. नं.-255, नावोवाड्डो उग्वेम	-वही-

[सं. 76/गोवा-वि.स./2007]

आदेश से,

स्टेण्डहोप युहलुंग, सचिव

#### ORDER

New Delhi, the 7th September, 2009

O.N. 35.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Goa Legislative Assembly, 2007 specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

#### TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of contesting candidates	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Goa Legislative Assembly, 2007	20-Ponda	Dias Santan, H. No. 539/5, Keriam Khandepar, Ponda, Goa Khandepar, 403401	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.	-do-	36-Sanguem	Alfred Fernandes, H. No. 255, Navowaddo Uguem	-do-

[No. 76/GOA-LA/2007]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Secy.

3176 GI/09-3